

विकास भारती पब्लिक स्कूल
योगात्मक निर्धारण-1(2017-18)

कक्षा -छठी

विषय -हिंदी

अभ्यास प्रश्न पत्र

समयावधि-3घंटे

पूर्णांक-80

सामान्य निर्देश -1.प्रश्न पत्र में कुल चार पृष्ठ हैं। 2. प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार ही लिखें।

3.लिखावट पर विशेष ध्यान दें।

खंड - क(पठन कौशल)

प्रश्न 1	<p>निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।</p> <p>दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं, जिनमें मुख्य हैं - नेमिनाथ जी का मंदिर और आदिनाथ जी का मंदिर। नेमिनाथ जी का मंदिर बाहर से देखने पर तो आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। इस मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 ई० के आस - पास बनवाया था। सारा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग में संगमरमर की कलाकृतियों पर सोने के पत्तर से नक्काशी की गई है। मंदिर की वास्तुकला ही यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि यह आदिनाथ जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस मंदिर को देखने लोग दूर - दूर से आते हैं।</p>	5
	क) दिलवाड़े के प्रमुख मंदिर कौन - कौन से हैं?	
	ख) मंदिर के अंदर जाकर सब चकित क्यों रह गए?	
	ग) आदिनाथ जी के मंदिर की क्या विशेषता है?	
	घ) जैन धर्म की स्थापना किसने की थी?	
	ड) 'हिंसा' शब्द का विलोम लिखिए।	
प्रश्न 2	<p>निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।</p> <p>मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे</p>	5

	<p>सोचा था,पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार फसलें खनकेंगी, और फल-फूलकर मैं मोटा सेठ बनूँगा। पर बंजर धरती से एक न अंकुर फूटा, इस मिट्टी ने न एक पैसा भी उगला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए।</p>	
	क) कवि ने बचपन में क्या काम किया था?	
	ख) कवि ने कैसे बोते हुए क्या सोचा था?	
	ग) कवि के सपने का क्या हुआ?	
	घ) 'धरती' का पर्यायवाची लिखिए।	
	ड) 'उपजाऊ' शब्द का विलोम लिखिए।	
	खंड -ख (रचना कौशल)	
प्रश्न 3	किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए।	5
	क) अनुशासन का महत्त्व ख) परीक्षा का एक दिन	
प्रश्न 4	कोई एक पत्र लिखिए।	5
	क) विद्यालय में हो रहे वार्षिकोत्सव पर आमंत्रित करते हुए अपने चाचा जी को पत्र लिखिए।	
	ख) जन्मदिवस पर साइकिल मिलने पर छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए।	
प्रश्न 5	संकेतों के आधार पर शीर्षक और उचित शिक्षा देते हुए कहानी लिखिए -	5
	सेठ के घर पुत्र हुआघर में नेवलादोनों नेवले पर विश्वासपति - पत्नी बाहरनेवले के मुँह पर खूननेवले को मार.....एक साँपसच पता..... शिक्षा-.....	
	खंड - ग (व्याकरण)	

प्रश्न 6	निर्देशानुसार उत्तर दीजिए -:	
	क) एक - एक पर्यायवाची लिखिए -पर्वत , घर	2
	ख) विलोम शब्द लिखिए -अनुज , ठोस	2
	ग) दो अनेकार्थी लिखिए -कल ,अर्थ	2
	घ) लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए -1) गायक गाना गा रहा है। 2) कवि ने कविता लिखी।	2
	ङ) अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए -1)जो किसी का पक्ष न ले 2) जिसका आकार हो	2
	च) संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर भेद लिखिए -1. कुतुबमीनार बहुत प्राचीन है। 2. सारी फसल खराब हो गई है।	2
	छ) लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करें-एक हाथ से ताली नहीं बजती , ऊँची दुकान फीका पकवान	2
	ज) मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए-उँगली पर नचाना	2
	झ) समस्तपदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए -महात्मा , राधा - कृष्ण	2
	ञ) रिक्त स्थानों में विभक्ति चिह्न भरिए - 1. बंदर को पत्थरमारो। (करण कारक) 2. लड़केभोजन दो। (संप्रदान कारक)	2
	ट) समस्तपद बनाइए और समास का नाम लिखिए-राजा का पुत्र , आठ आनों का समूह	2
	ठ) वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए -1) इस पौधे को पानी दे दो। 2) मक्खी बीमारी फैलाती है।	2
	ड) उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा करें - 1. कल रात उसकी दादी की..... हो गई। (निधन/मृत्यु) 2. रोहन की.....सोहन समझदार है।(अपेक्षा / उपेक्षा) 3.अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। (भारती / भारतीय)	3
	खंड -घ (हिंदी भाषा)	
प्रश्न 7	अर्थ लिखिए-व्यर्थ , उपद्रव	2
प्रश्न 8	आशय स्पष्ट कीजिए - “पता नहीं मैडम को काम पसंद आएगा या नहीं।”	2
प्रश्न 9	किसने - किससे कहा ? 1) यदि तुम यह काम नहीं करना चाहते हो, तो मैं किसी और बच्चे को कह देती हूँ। 2) मैं आजाद हो गया।पर ये मेरा शरीर इतना सुस्त क्यों हो रहा है?	2
प्रश्न10	वाक्य लिखिए-स्वाधीन , प्रतिभा , व्याकुल	3
प्रश्न11	रिक्त स्थान भरिए -1. सार्थक की अध्यापिका का नामथा।	3

	2. सुशील को माली ने तोड़ने पर डाँटा। 3. सार्थक.....में कमजोर था।	
प्रश्न12	माता - पिता का जीवन में क्या स्थान है ? 'कैसे कहूँ तुम कैसी हो' कविता के आधार पर 50-60 शब्दों में उत्तर दीजिए।	3
प्रश्न13	निम्नलिखित पदयांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।	4
	भौंकता वह रहा, जब तक किउसमें जान थी। महल की दुनिया उसी की, नकल पर हैरान थी। ठीक शीशे की तरह यह, तुम देख लो संसार है। नेक है वह नेक को, बद के लिए बदकार है।	
	क) कुत्ता कब तक भौंकता रहा?	
	ख) यह संसार किसके जैसा है?	
	ग) पंक्तियों के कवि का नाम लिखिए।	
	घ) 'बद' शब्द का अर्थ लिखिए।	
प्रश्न14	निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए।	3
	क) कुत्ता क्रोधित क्यों हो रहा था?	
	ख) सार्थक के स्कूल में किसकी तैयारियाँ हो रहीं थीं?	
	ग) सार्थक के पिता उसे क्यों डाँटते थे?	
प्रश्न15	निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए।	6
	क) अपने पिता के शरीर में आकर सुशील प्रसन्न क्यों नहीं था?	
	ख) अन्य अध्यापकों ने सार्थक के बारे में उसकी कक्षा अध्यापिका से क्या कहा और क्यों?	
	ग) कवि को माँ के सामने यह संसार भी छोटा क्यों लगता है?	
